

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.02.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 10.02.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

थाना खामपार पुलिस द्वारा एक स्कॉर्पियों में छिपाकर ले जा रहे अंग्रेजी शराब कीमत 03 लाख 50 हजार सहित वाहन कुल 13 लाख 50 हजार रूपये की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.02.2021 को थानाध्यक्ष खामपार मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर कुकुर घाटी के पास से एक अदद स्कॉर्पियो वाहन नं0-यूपी-21-टी-7758 में रखा अवैध अंग्रेजी शराब आरएस 02 पेटी से 24 बोतल (प्रत्येक 750मिली0), आरएस 08 पेटी से 192बोतल (प्रत्येक 375मिली0) तथा 08 पीएम 17 पेटी में 819 पाउच फ्रुटी, व 30पेटी में 1350 शीशी बंटी बबली देशी शराब बरामद किया गया, जिसकी बाजारू कीमत 03 लाख 50 हजार रूपये तथा वाहन की बाजारू कीमत 10 लाख रूपये सहित कुल बरामदगी 13 लाख 50 हजार रूपये की करते हुए वाहन से 01 अभियुक्तों 01.बृजेश यादव पुत्र गौतम सा0 भैसाखाल थाना जीरादेई जिला सिवान, बिहार को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.फूलमती देवी पत्नी नेवास राजभर सा0 विशुनपुरा बाजार थाना बघौचघाट देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना बरहज पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 10.02.2021 को थानाध्यक्ष बरहज मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर रुद्रपुर टैक्सी स्टैण्ड कस्बा बरहज से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **01.भोला यादव पुत्र शिवपूजन यादव सा0 पुराना बरहज थाना बरहज, देवरिया** बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये बरहज पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक **10.02.2021** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡ थाना खामपार- मु0अ0सं0-17/2021 धारा 323,307,504 भादवि 01. आलोक गुप्ता पुत्र प्रभुदयाल 02.मीरा देवी पत्नी प्रभुदयाल 03.प्रभुदयाल गुप्ता पुत्र स्व0 दूधनाथ सा0 खामपार बाजार थाना खामपार, देवरिया।

04.निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 10.02.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 02 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 110 जी जा0 फौ0 के अन्तर्गत 10 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

05.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 10.02.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 207 वाहनों से 226300 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।